



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 122]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 1977/चैत्र 23, 1899

No. 122]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 1977/CHAITRA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 13th April 1977

G.S.R. 183(E).—In exercise of the powers conferred under rule 139 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking No 293/76 CE, dated 21st December, 1976, the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VII of the said rules, including the provisions relating to the removal of goods from one warehouse to another, shall apply to unmanufactured tobacco falling under sub-item-1 of Item 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), subject to the condition and limitation that the number of removals of such goods from one warehouse to another shall not exceed three after the first warehousing:

Provided that the condition and limitation regarding the number of removals of such goods from one warehouse to another shall not apply to Virginia variety of unmanufactured tobacco in leaf form:

Provided further that the removal of tobacco from one warehouse to another warehouse for the purpose of affixing 'Agmark' or for processing or treatment and return, if any, to the first warehouse, or removal from one warehouse of a cigarette manufacturer to another warehouse belonging to the same manufacturer in the same city or town shall be excluded while computing the number of movements for the purpose of this notification:

Provided also that in respect of unmanufactured tobacco first warehoused prior to 1st April, 1977, if three or more removals within the meaning of this notification, have already taken place, one more removal shall be allowed.

[No. 63/77]

S. K. BHARDWAJ, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व खण्ड)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1977

सा० का० मि० 183 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना संख्या 293/76-के० उ०, तारीख 21 दिसम्बर, 1976 को अधिकांत करते हुए, निदेश करती है कि उक्त नियमों के अध्याय 7 के उपबन्ध, जिसमें एक भाण्डागार से दूसरे को माल का हटाये जाने सम्बन्धी उपबन्ध भी आते हैं; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मव पं० 4 की उपमद I में सम्मिलित अविनिर्मित तम्बाकू को इस शर्त और परिसीमा के अधीन लागू होंगे कि ऐसे माल को एक भाण्डागार से दूसरे को प्रथम भाण्डागारण के पश्चात् तीन से अधिक बार नहीं हटाया जा सकेगा।

परन्तु ऐसे माल के एक भाण्डागार से दूसरे भाण्डागार को हटाये जाने की शर्तें और परिसीमा अविनिर्मित तम्बाकू की बरजीनिया किस्म को पत्ती के रूप में तम्बाकू को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि 'एगमार्क' लगाने के प्रयोजन के लिए, या प्रसंस्करण या संसाधन के लिए, तम्बाकू का एक भाण्डागार से दूसरे भाण्डागार को हटाया जाना, और पहले भाण्डागार को उसको वापसी यदि का जाए तो, अथवा एक ही शहर या नगर में तम्बाकू का एक ही सिगरेट विनिर्माता के एक भाण्डागार से दूसरे भाण्डागार को हटाया जाना, अधिसूचना के प्रयोजन के लिए मंचनो की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और भी कि 1 अप्रैल, 1977 से पूर्व प्रथम भाण्डागारित अविनिर्मित तम्बाकू के संबंध में यदि इस अधिसूचना के अर्थ में तीन या अधिक संलग्न हो चुके हों तो एक बार और हटाये जाने की अनुज्ञा दी जाएगी।

[सं० 63/77]

एस० के० भारद्वाज, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977